



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष 1931 (श०)
(सं० पटना 2) पटना, शुक्रवार, 1 जनवरी 2010

सं०3ए-2-वे०पु०(चि० भत्ता)-21/2009-12372/वि(2)
वित्त विभाग

संकल्प

31 दिसम्बर 2009

विषय:- राज्य के सरकारी सेवकों को स्वीकृत मकान किराया भत्ता की वर्तमान दर में संशोधन के संबंध में ।

केन्द्रीय षष्ठम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।

2. वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता की वर्तमान दरों को संशोधित कर निम्नवत् लागू करने का निर्णय लिया गया है:-

वर्ग	शहर का नाम	भत्ता का दर
1	2	3
बी-1	पटना (यू०ए०),	मूल वेतन का 20%
सी	अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय (यू०ए०), बेतिया, भागलपुर (यू०ए०), बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया (यू०ए०), गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार (यू०ए०), किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी (यू०ए०), मुँगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया (यू०ए०), सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी (यू०ए०), सीवान, सुपौल ।	मूल वेतन का 10%
अवर्गीकृत शहर	मूल वेतन का 7.5%

3. ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत राज्य के सरकारी सेवकों को मूल वेतन का 5% की दर से मकान किराया भत्ता देय होगा ।

4. नई वेतन संरचना में मूल वेतन से आशय उस वेतन से होगा जो वेतन बैंड में निर्धारित वेतन एवं लागू ग्रेड वेतन के जोड़ से आहरित किया जायगा, किन्तु इसमें विशेष वेतन या किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा ।

5. यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से लागू होगा

6. जहाँ तक उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पदाधिकारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता देने का प्रश्न है, इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधानसभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित सचिवालय/कार्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रबीन्द्र पवार,
सचिव (संसाधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 2-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>